



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]
No. 21]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी, 17, 1981/पौष 27, 1902
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY, 17, 1981/PAUSA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1981

सा. का. नि. 26(अ) :—8 जनवरी, 1981 को राष्ट्रपति
द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार)
संशोधन आदेश, 1981

राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का
37) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश,
1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते
हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते
और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1981 है।
2. राज्य पुनर्गठन (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार)
आदेश, 1957 के पैरा 8 में, उप-पैरा (2) के पश्चात्
निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) पैरा 7 में निर्दिष्ट भत्तों और विशेषाधिकारों के
अतिरिक्त, चण्डीगढ़ में राज भवन, सम्मिजन

करने के लिए 1980-81 वर्ष के दौरान 3,25,000
रु. की रकम पंजाब राज्य की संचित निधि पर
भारित की जाएगी और उसमें से पंजाब के राज्य-
पाल को दी जाएगी।”

एन. संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति

[सं. 2/57/78-स्टेट्स]

के. बी. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 1981

G.S.R. 26(E).—The following Order made by the President
on 8th January, 1981 is published for general information :—

THE STATES REORGANISATION (GOVERNORS'
ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMEND-
MENT ORDER, 1981.

In exercise of the powers conferred by section 73 of the
States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), the President
hereby makes the following Order further to amend the
States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges)
Order, 1957, namely :—

1. This Order may be called the States Reorganisation
(Governors' Allowances and Privileges) Amendment Order,
1981.

2 In paragraph 8 of the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957 after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be added namely :—

during the year 1980-81 for furnishing the Raj Bhavan at Chandigarh."

"(3) In addition to the allowances and privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to the Governor of Punjab an amount of Rs. 3,25,000

N. SANJIVA REDDY,
President

[No. 2/57/78-States]
K. B. SRINIVASAN, Jt. Secy.